



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]
No. 345]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

सं. 82 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. त्रिवि-9/ए एम-2000/डीबीके सेल.—विदेश व्यापार नीति, 2004—09 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सार्वजनिक सूचना संख्या 32 (आर ई-2007)/2004—09, दिनांक 10-8-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशक, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4, 6 एवं 8 में यथाउल्लिखित विभिन्न स्कीमों के तहत घरेलू तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति हेतु हाई स्पीड डीजल एवं फर्नेस ऑयल दोनों हेतु 1160 रु. प्रति मीट्रिक टन की अखिल उद्योग ड्राबैक दर की घोषणा करते हैं जो 1-4-2007 से अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th November, 2007

No. 82 (RE -2007)/2004—2009

F. No. Misc.-9/AM-2000/DBK Cell.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—09, and in partial modification of Public Notice No. 32 (RE-2007)/2004—09 dated 10-8-2007, the Director General of Foreign Trade hereby announces the All Industry Rate of Drawback of Rs. 1160 per MT for both HSD and Furnace Oil, supplied by Domestic Oil Companies under various Schemes as contained in Chapters 4, 6 and 8 of the Foreign Trade Policy, with effect from 1-4-2007 and until further orders.

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and Ex-officio Addl. Secy.